

RPL/BSE/CORP August 14, 2021

BSE Ltd.
Listing Compliance Department,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
MUMBAI – 400 001

Dear Sirs.

Sub: Published financial results

Ref.: Scrip no. 517500

In compliance of Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby submit a copy of the published extract of consolidated un-audited financial results for the first quarter ended 30th June 2021 along with key numbers of Standalone Financial Results.

The same have been published on Saturday, 14th August, 2021 in the Delhi and Mumbai edition of Business Standard (English) and in the Delhi and NCR edition of Business Standard (Hindi).

This is for your kind information and records please.

Thanking You,

Yours faithfully,

ASHWANI K. VERMA

For ROTO PUMPS LTD

Encl.: A/a



pumps

Particulars

Revenue from operations

items)

Net Profit/(loss) for the period

before tax (after extraordinary

Net Profit/(loss) for the period

after tax (after exceptional and

Total comprehensive Income/(loss)

Paid-up equity share capital (Face

Reserves (excluding Revaluation

Reserve) as shown in the Audited

Earnings per share - Basic and

Key numbers of Standalone Financial Results

and on the Company website - www.rotopumps.com.

Particulars

Net Profit/(loss) for the period (before tax,

Net Profit/(loss) for the period before tax (after

Net profit/(loss) for the period after tax (after

[Comprising Profit/(loss) for the period (after tax)

Basic and diluted earnings per share (face value

of Rs. 10/- per share) (in rupees) (not annualised

30, 2021 have been limited reviewed by the Statutory Auditors of the Company.

and Other Comprehensive Income (after tax)]

Paid up Equity Share Capital (Face value

3. The Key Standalone Financial Information is given below:

Particulars

Other Comprehensive Income/(loss) (net of tax expenses

Total Comprehensive Income/(loss) for the period

Rs. 10 each)

Other Equity

for quarter)

exceptional and extraordinary items)

exceptional and extraordinary items)

exceptional and extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period

Total Income from Operations

diluted (not annualized) in ₹

Revenue from operations

extraordinary items)

for the period after tax

value ₹ 2 per share)

Balance Sheet

Profit before tax

Profit after tax

Place: Delhi

S.No.

2

Notes:

Date: 13th August, 2021

MAXE

since 1968 >>>

STATE BANK OF INDIA

State Bank of India, Madam Cama Road, Mumbai - 400021. Branch office at Sanganeri Gate, M I Road, Jaipur, Rajasthan - 302003.

POSSESSION NOTICE (As per Rule 8(2) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of State Bank of India under the Securitization, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued Demand Notices upon the Borrowers/Co-borrowers mentioned below, to repa the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower/Co-borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Co-borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates.

The Borrower/Co-borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings

with the property will be subject to the charge	je of State Bank of India.		
Name and Address of Borrowers & Date of Demand Notice	Description of Property(ies) & Date of Possession	Amount demanded in Possession Notice (Rs.)	
1. PUNIT SAINI, 2. KAVITA SAINI, Both are residing at 7/162, GROUND FLOOR, DDA FLAT MADA NGR, DR AMBEDKAR NAGAR, DELHI- 110062 Demand Notice Date: 15-Apr-21		Twenty One Lakh(s) Fifty One Thousand Five	

The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets Place: Delhi Sd/- Authorized Officer

Date: 14/08/2021

Regd. Off.: 'Roto House', Noida Special

Economic Zone, Noida – 201305

CIN: L28991UP1975PLC004152 | Website: www.rotopumps.com

Tel.: 0120-2567902-05 | Fax: 0120-2567911 | Email : investors@rotopumps.com

Extract of consolidated un-audited financial results for the first

Quarter ended 30th June, 2021

Un-audited

3609.37

972.35

698.44

673.32

309.08

4.52

3277.01

1008.37

750.34

Note: The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges

under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

The full format of the Financial Results is available on the Stock Exchange websites- www.bseindia.com

Omaxe Limited

Regd. Office: 19-B, First Floor, Omaxe Celebration Mall, Sohna Road, Gurgaon-122 001, (Haryana)

Corp. Office: 7, LSC, Kalkaii, New Delhi-110019

CIN: L74899HR1989PLC051918, Website: www.omaxe.com, Email: info@omaxe.com

Tel: 91-11-41893100, Fax: 91-11-41896653

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the

quarter ended June 30, 2021

Unaudited

89.48

(59.31)

(59.31)

(44.43)

(44.94)

182.90

(2.38)

Unaudited

53.75

(45.34)

(33.93)

(0.51)

(34.44)

1. The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee & approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 13th August, 2021. The financial results for the quarter ended June

2. The above is an extract of the detailed format of quarterly unaudited financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full Financial Results of Omaxe Limited for the quarter ended June 30, 2021 are available on the Company's Website

(www.omaxe.com) and on the Website of BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com).

Quarter ended

191.87

(62.29)

(62.29)

0.54

1.11

182.90

0.01

Quarter ended

Audited

59.58

(93.06)

(24.56)

0.34

(24.22)

30.06.2021 31.03.2021 30.06.2020 31.03.2021

Unaudited

47.19

(40.51)

(40.87)

(39.22)

1.65

For Omaxe Limited

30.06.2021 31.03.2021 30.06.2020 31.03.2021

Audited Unaudited

53.85

(63.55)

(63.55)

(63.93)

(62.58)

182.90

(3.49)

Ouarter ended

30-06-2021 31-03-2021 30-06-2020

Audited

3,603.09

497.51

361.02

395.98

309.08

2.33

3,264.04

519.85

323.59

Un-audited

2050.70

204.22

106.32

94.91

309.08

0.69

1931.81

332.34

237.43

Roto ROTO PUMPS LTD.

HIMACHAL PRADESH **PUBLIC WORKS DEPARTMENT INVITATION FOR BIDS (IFB)**

The Executive Engineer, B&R Division, HPPWD Nahan, District Sirmaur, H.P. on behalf of Governor of Himachal Pradesh invites the item rates bids, in electronic tendering system from the eligible class of Contractors registered with HPPWD for the works detailed in the table.

Sr.	Name of Work	Estimated	Earnest					
No.		Cost (Rs.)	Money (Rs.)					
1	2	3	4					
1	PBMC of Nahan Dadahu Haripurdhar Road Km 21/0 to	45,88,386/-	76,400/-					
	36/0 (SH:- Routine Maintenance in Km 21/0 to 36/0)	only	only					
2	A/R and M/o Banog Kheri Road Km 0/0 to 39/0 (SH:- C/o	13,86,442/-	27,800/-					
-	Breast Wall at RD 17/450 to 17/500)	only	only					
3	A/R and M/o Nahan Round Road Km 0/0 to 2/0 (SH:-	12,27,013/-	24,600/-					
	Repair of Various RDs in Km 0/0 to 2/0)	only	only					
4	C/o LR from Molar Ghat to Deed Bagar Jaincha Majhai	6,11,471/-	12,300/-					
,	Malahan Km 0/0 to 14/0 under SCSP (SH:- C/o X-Drainage	only	only					
	Work at RD 0/250 and 0/500)		,					
Star	Starting Date for Downloading Bid:- 20.08.2021							

Starting Date for Downloading Bid:-28.08.2021 up to 10:00 AM Deadline for Submission of Bid:-The bidders are advised to note other details of tenders from the department websi www.hptenders.gov.in.

HPPWD (B&R) Division Nahan Tel/Fax: 01702-222260 E-mail: ee-nah-hp@nic.ir On behalf of Governor of Himachal Pradesh 3341/2021-2022

nal Office : Delhi Plot No 20 & 21/1, Near Karol Bagh o Station, Opposite to Metro Pillar no 98, Pusa Road,

SOUTH INDIAN Ban

Amount ₹ in Lakhs

Year ended

31-03-2021

Audited

12,652.68

2,565.97

1,833.10

1,793.48

309.08

10,020.60

11.86

11,572.15

2,715.25

1,941.74

By Order of the Board

Harish Chandra Gupta

DIN: 00334405

(Rupees in Crore)

Year Ended

Audited

514.59

(304.64)

(304.64)

(235.21)

(233.93)

182.90

1.221.83

(12.86)

(Rupees in Crore)

Year Ended

Audited

284.05

(280.10)

(210.21)

(209.50)

0.71

Chairman & Managing Director

Karol Bagh, New Delhi – 110 005 Ph-011- 45128661 aail: ro1008@sib.co.in CIN: L65191KL1929PLC001017 NOTICE U/S. 13 (2) OF SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 (HEREINAFTER REFERRED TO AS ACT R/W RULE 3 (1) OF

SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 1 Mr. Ekhal Ahmed, proprietor M/s A S Garments, IX/5896, Street No 4, Ajeet Nagal

Gandhi Nagar, NCT of Delhi 110 031 Also at Abinandan Society, F-48, FF1, SLF, Ved Vihar 2.Mrs. Shaida Khatoon W/o Mohd. JH Ansari residing at 9/3192. Gali no 5. Dharmapura Gandhi Nagar, East Delhi 110 031 Also at Abinandan Society, F-48, FF1, SLF, Ved Vihar, Uttar

3.Mrs. Sultana W/o Shammi Khan residing at House no 9/5896, Gali Number 4, Ajit Nagar Gandhi Nagar, East Delhi, NCT of Delhi - 110 031 Also at House no 270, Gali No 8, Ward no 31

Kushal Park, Mohalila Loni, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201 102

4.Mrs. Khushnuma D/o Shammi Khan residing at House no 9/5896, Gali Number 4, Ajit Nagar Gandhi Nagar, East Delhi, NCT of Delhi - 110 031 Also at House no 270, Gali No 8, Ward no 31

Kushal Park, Mohalla Loni, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201 102

elow (hereinafter referred to as Secured Assets).

The 1st among you as Principal Borrower and 2 to 4 among you as Personal Guarantors, availed llowing limits by executing necessary documents on date given hereunder from THE SOUTH INDIAN BANK LIMITED, having its registered office at "SIB HOUSE", T.B. Road, Thrissur -1 Kerala and one of its Regional Offices at Delhi at 3rd Floor, Plot No 21 & 21/1, Near Karol Bagh Metro Station, Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi - 110 005 and one of its Branches at Plot No 9, 1st Floor, Pankaj Arcade, Sector 10, Dwarka-110075 and is secured by the assets scheduled

Nature of facility		Date of Document or Date of AOD	Balance outstanding as on 17-05-2021
Cash Credit Open Loan (SME Composite) (0398083000000015)	Rs. 60,00,000.00	27-11-2017	Rs. 64,30,506.74
Funded Interest Term Loan (COVID Moratorium) (0398656000000024)	Rs. 3,72,000.00	28-08-2020	Rs. 4,01,704.35

The said account/s have been classified as Non Performing Asset in our Accounts on 21-12-2020 and we had issued notice under Sec 13 (2) of the Act on 18-05-2021 demanding paymen of Rs. 68,32,211.09 (Rupees Sixty Eight Lakhs Thirty Two Thousand Two Hundred and Eleven and Paise Nine Only) as on 17-05-2021 plus further interest and costs within 60 days from the date of receipt of the notice. However, as all of you have avoided service of the said notice, this public notice is issued pursuant to Rule 3(1) of the Security Interest (Enforcement

lence, you are hereby called upon by this notice to discharge your liabilities in full within 60 days of this notice, failing which, we shall, without any further reference, be constrained to enforce the secured assets scheduled below by exercising all or any of the rights given unde ection 13 (4) of the said Act.

You may further note that as per Section 13 (13) of the ACT, you are restrained/prohibited from disposing of or dealing with the above securities or transferring by way of sale, lease of otherwise (other than in the ordinary course of business) any of the above secured assets without our prior written consent. Please note that this publication is made without prejudice to such rights and remedies as are available to The South Indian Bank Ltd. against the borrow and the quarantor/ co-obligant as per law.

The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of Section 13 of the Act, in spect of time available to redeem secured assets

SCHEDULE OF SECURED ASSETS

SCHEDULE "A" (Movable properties secured to the account)
Hypothecation of the entire current assets (present and future) of the firm (Addressee no.1), al the tangible movable properties such as Stock - in - Trade, Stock of Raw Materials, Stock in Process, Finished Goods, Packing Materials, and goods of the borrower, all the present and future actionable claims and other movable property that may arise or come into existence in the future, including book debts, decrees and decreetal debts, outstanding moneys receivable receivables backed by documents of title to goods drawn under export order/accepted bills of exchange drawn under export order/bills of exchange drawn under letter of credit, input tax claim receivables, other claims, (including counter-claims and claims under insurance policies), which now or hereafter from time to time during the security shall be brought in stored or be in or about their premises or any other godown(s) or be in course of transit from one godown to another or from one place to another or wherever else the same may be

SCHEDULE "B"(Immovable properties secured to the account) ITEM NO 1: All that Part and Parcel of Freehold Residential House admeasuring 25 square

vards equivalent to 20.90 Square Metre covered area for Ground Floor & First Floor 45.98 Square Metre bearing Khasra number 272/4, Plot/Property no 270, Gali No 8, situated in the area within Ward no 31, Khushal Park, Near Mamura Colony, Village Loni, Pargana Loni and Tehsil Loni, District Ghaziabad, Uttar Pradesh along with all construction, improvements Easmentry Rights existing and appurtenant thereon owned by Mrs. Sultana Wife of Shammi Khan & Mrs. Khushnuma daughter of Shammi Khan more particularly described under Sale Deed no 22281 dated 26/12/2017 of SRO Ghaziabad bounded on East by Plot, West by 15 feet Road, North by Plot and South by Plot.

ITEM NO 2: All that Part and Parcel of Freehold Residential Plot Bearing Plot number A-59 admeasuring 222 Square Yards equivalent to 185.61 Square Metre bearing Khasra number 170/2 situated in the area within Sadhulabad Colony known as Modern City, Village Sadhulabad, Pargana Loni and Tehsil Loni, District Ghaziabad, Uttar Pradesh along with Three Storeyed Residential Building, all Other Construction, Improvements, Easmentry Rights existing and appurtenant thereon owned by Shaida Khatoon wife of Mohd J H Ansari more particularly described under Sale Deed no 31439 dated 12/07/2013 of SRO Ghaziabad bounded on East by 8 Feet Road, West by Property of Other / Digar Malik, North by 20 Fee Road and South by Property of Other / Digar Malik.

(CHIEF MANAGER) Date: 13.08.2021 AUTHORISED OFFICER Place : New Delhi

SBFC

Executive Enginee

SBFC Finance Private Limited

(erstwhile Small Business Fincredit India Private Limited Registered Office:- Unit No. 103, First Floor, C&B Square, Sangam Complex, Village Chakala, Andheri- Kurla Road, Andheri (East), Mumbai-400059.

DEMAND NOTICE

Whereas the borrowers/co-borrowers mentioned hereunder had availed the financial assistance from Reliance Home Finance Ltd. Whether the Desdor Assignment, RHFL transferred and assigned the financial assets and other rights in favour of the Securitisation Trust. Subsequently, the Securitisation Trust appointed SBFC Finance Private Limited to do all such acts including enforcement of underlying securities. We state that despite having availed the financial assistance, the borrowers/mortgagors have enforcement of underlying securities: We state that despite having availed the financial assistance, the borrowers/morgagors have committed various defaults in repayment of interest and principal amounts as per due dates. The account has been classified as Non Performing Asset on the respective dates mentioned hereunder, as per guidelines of Reserve Bank of India, consequent to the Authorized Officer under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("SARFAESI Act") and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notices on respective dates mentioned herein below, calling upon the following borrowers /mortgagors to repay the amount mentioned in the notices together with further interest at the contractual rate on the amount mentioned in the notices and ncidental expenses, cost, charges etc. until the date of payment within 60 days from the date of receipt of notices.

The notices issued to them on their last known addresses have returned un-served and as such they are hereby informed by way o public notice about the same

2. Babita Kaushik Plot No. 1, Gali No. 9a, Ashok Vihar Phase 2, Gurgaon, Haryana-122001. 3. D K Enterprises A/04, Rajendra Park, Opp Union Bank, Gurgaon, Haryana-122001. Trust Name: Indian Receivable Trust 19 - Series-4 3. Oth June 2021 (PR00709416) Loan Amount: Rs. 2500000/- (Rupees Twenty Five Lakh(s) Only) Outstanding Amount: Rs. 2544424/- (Rupees Twenty Five Lakh(s) Forty Four Thousand Four Hundred Twenty Four Only) as on 30th June 2021 Loan Account No: RHLPDEL000061958 (PR00709553) Loan Amount: Rs. 800000/- (Rupees Eight Lakh(s) Only) Immovable Property Bearing Plot Area Admeasuring 75 Sq. Yds. Out Of Khasra No. 15507/4024/2888 (1-1-18) Part 10/438 (0-0-10), Khewal Mauja Ashok Vihar, Tehsil And District Gurgaon, Haryana- 122001 And Bounded As Under East- 20 Feet Road,	public flotioc about the same.					
2. Babita Kaushik Plot No. 1, Gali No. 9a, Ashok Vihar Phase 2, Gurgaon, Haryana-122001. 3. D K Enterprises A/04, Rajendra Park, Opp Union Bank, Gurgaon, Haryana-122001. Trust Name: Indian Receivable Trust 19 - Series-4 3. Oth June 2021 (PR00709416) Loan Amount: Rs. 2500000/- (Rupees Twenty Five Lakh(s) Only) Outstanding Amount: Rs. 2544424/- (Rupees Twenty Five Lakh(s) Forty Four Thousand Four Hundred Twenty Four Only) as on 30th June 2021 Loan Account No: RHLPDEL000061958 (PR00709553) Loan Amount: Rs. 800000/- (Rupees Eight Lakh(s) Only) Immovable Property Bearing Plot Area Admeasuring 75 Sq. Yds. Out Of Khasra No. 15507/4024/2888 (1-1-18) Part 10/438 (0-0-10), Khewal Mauja Ashok Vihar, Tehsil And District Gurgaon, Haryana- 122001 And Bounded As Under East- 20 Feet Road,	Training of Trio Dollower,			Loan and outstanding amount		
Outstanding Amount: Ns. 8/0562//- (Rupees West- House, North- House, Eight Lakh(s) Five Thousand Eight Hundred South-House. Twenty Seven Only) as on 30th June 2021		2. Babita Kaushik Plot No. 1, Gali No. 9a, Ashok Vihar Phase 2, Gurgaon, Haryana - 122001. 3. D K Enterprises A/04, Rajendra Park, Opp Union Bank, Gurgaon, Haryana-122001. Trust Name: Indian	30th June 2021 NPA date: 10th April 2021	(PR00709416) Loan Amount: Rs. 2500000/- (Rupees Twenty Five Lakh(s) Only) Outstanding Amount: Rs. 2544424/- (Rupees Twenty Five Lakh(s) Forty Four Thousand Four Hundred Twenty Four Only) as on 30th June 2021 Loan Account No: RHLPDEL000061958 (PR00709553) Loan Amount: Rs. 800000/- (Rupees Eight Lakh(s) Only) Outstanding Amount: Rs. 805827/- (Rupees Eight Lakh(s) Five Thousand Eight Hundred	Part 10/438 (0-0-10), Khewat No. 791/1107 Situated At Mauja Ashok Vihar, Tehsii And District Gurgaon, Haryana- 122001 And Bounded As Under East- 20 Feet Road, West- House, North- House,	

In the circumstances as aforesaid, the notice is hereby given to the above borrowers, co-borrowers, to pay the outstanding dues as mentioned above along with future interest and applicable charges within 60 days from the date of the publication of this notice failing which further steps will be taken after the expiry of 60 days of this notice against the secured assets including taking possession of the secured assets of the borrowers and the mortgagors under Section 13(4) of the SARFAESI Act and the applicable Rules thereunder. Please note that under Section 13 (13) of the SARFAESI Act, no Borrower shall, transfer by way of sale, lease or otherwise any of his

secured assets referred to in the notice, without prior written consent of the secured creditor. Sd/- (Joyal Nadar) Authorized Officer SBFC Finance Private Limite Dated: 14th August 2021

ORTEL COMMUNICATIONS LIMITED (UNDER CIRP) CIN: L74899DL1995PLC069353 Registered Office: B7/122A, Safdarjung Enclave, New Delhi - 110029 Corporate Office: C-1, Chandrasekharpur, Near BDA Colony, Bhubaneswar, Odisha - 751016

Г	(Rs. in Crores)						
П			Standalone	9	С	onsolidated	d
Ш		Q	uarter end	ed	Qı	uarter ende	d
Sr No	Particulars	30-Jun-21 (Unaudited)	31-Mar-21 (Audited)		30-Jun-21 (Unaudited)	31-Mar-21 (Audited)	30-Jun-20 (Unaudited)
1	Total Income	10.60	15.18	19.65	10.60	15.18	19.65
2	Net Profit/(Loss) for the period	(9.31)	(8.30)	(2.46)	(9.31)	(8.30)	(2.46)
	(before exceptional items, extraordinary items and tax	k)					
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax	(9.31)	(8.30)	(2.46)	(9.31)	(8.30)	(2.46)
Ш	(after exceptional items and extraordinary items)						
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax	(9.31)	(8.30)	(2.46)	(9.31)	(8.30)	(2.46)
	(after exceptional items and extraordinary items)						
5	Total Comprehensive Income / (Expense) after tax	(9.31)	(8.28)	(2.46)	(9.31)	(8.28)	(2.46)
Ш	[comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and						
Ш	other comprehensive income/(Expense)(after tax)]						
6	Equity Share Capital	32.98	32.98	32.98	32.98	32.98	32.98
7	Other Equity excluding Revaluation Reserves	(119.46)	(110.15)	(90.69)	(119)	(110.15)	(90.69)
8	Earnings Per Share (EPS) of Rs.10/- each	*(2.82)	*(2.65)	*(0.75)	*(2.82)	*(2.65)	*(0.75)
	-Rasic & Diluted (in Rs.) (*Not annualised)						

(a) The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with Stock Exchanges under Regulations 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as modified by circular no. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 5, 2016. The full format of quarterly financial results are available on the websites of Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and also companies website at www.ortelcom.com

(b) The above consolidated results have been prepared in accordance with the principles and procedures set out in Ind AS 110 on Consolidated Financial Statement

(c) Previous periods' figures have been rearranged / regrouped, wherever necessary to make them comparable with those o current period. For Ortel Communications Limited (Under CIRP)

Date: August 13, 2021

Bidu Bhusan Dash Company Secretary

COMPETENT AUTOMOBILES CO. LTD. Regd. Off: Competent House, F-14, Connaught Place, New Delhi-110001

CIN: L34102DL1985PLC020668 Ph: 011-45700000

Email: cs@competent-maruti.com, Web.: www.competent-maruti.com

Extract of Statement of Unaudited Financial Results for the

	Quarter En	ided 30.06.2	021	(Rs. in Lacs)
S. No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2021 Unaudited	Quarter ended 30.06.2020 Unaudited	Year ended 31.03.2021 Audited
1.	Total Income/Revenue from Operations	18883.75	11796.11	120545.25
2.	Net profit / Loss for the period (before Tax and Exceptional Items)	357.19	264.37	2574.97
3.	Net profit / Loss for the period after Tax (before Exceptional Items)	242.14	194.00	1733.41
4.	Net profit / Loss for the period after Tax (after Exceptional Items)	242.14	194.00	1733.41
5.	Total Comprehensive Income for the period	_	_	_
6.	Equity Share Capital	614.60	614.60	614.60
7.	Earning per share (of Rs. 10/- each)			
	Basic	3.94	3.16	28.20
	Diluted	3.94	3.16	28.20
			•	

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the Stock Exchange www.bseindia.com and the company www.competent-maruti.com
- 2. The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board at heir respective meeting held on 13.08.2021.
- inancial Results for all the periods presented have been preapared in accordance with IND AS notified unde the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015.

For Competent Automobiles Co. Ltd. Sd/ Raj Chopra

Date: 13.08.2021

Place: New Delhi

Chairman & Managing Director

- An ISO 9001:2015 Company-(Formerly known as Ansal Housing & Construction Ltd.)

Ansal Housing Limited

Regd. Office: 606. 6th Floor, Indra Prakash, 21. Barakhamba Road, New Delhi - 110001 Head Office: 2F-AHCL, 2nd Floor, Ansal Plaza, Sector-1, Vaishali, Ghaziabad, U.P. - 201010 E-mail: ahl@ansals.com Website: www.ansals.com CIN: L45201DL1983PLC016821

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2021

										(Rs. in Lakh))
	_			Standa	lone			Consoli	idated		
	Sr.	DARTICUL ARC		Quarter En	ded	Year Ended		Quarter Ende	ed	Year Ended	
	No.	PARTICULARS	30.06.2021	31.03.2021	30.06.2020	31.03.2021	30.06.2021	31.03.2021	30.06.2020	31.03.2021	
			(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
Γ	1	Total Income from Operations (Net)	2,860.43	6,841.70	1,881.35	14,160.66	3,541.77	7,926.54	2,494.27	17,437.46	
	2	Net Profit (+) / Loss (-) for the period before tax	(1,066.91)	(3,904.53)	(603.73)	(6,608.14)	(993.68)	(3,724.06)	(540.94)	(6,345.75)	П
		(before Exceptional / Extraordinary items)									
	3	Net Profit (+) / Loss (-) for the period before tax	(1,066.91)	(3,904.53)	(603.73)	(6,608.14)	(993.68)	(3,724.06)	(540.94)	(6,345.75)	
		(after Exceptional / Extraordinary items)									П
	4	Net Profit (+) / Loss (-) for the period after tax	(649.15)	(2,396.60)	(461.46)	(4,419.49)	(554.87)	(2,257.35)	(416.26)	(4,228.52)	П
		(after Exceptional / Extraordinary items)									
	5	Total Comprehensive Income for the period	(647.00)	(2,383.98)	(462.79)	(4,410.87)	(552.72)	(2,243.02)	(417.59)	(4,218.19)	
		[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)									П
		and Other Comprehensive Income (after tax)]									П
	6	Paid-up Equity share capital (Face value of Rs.10/-each)	5,938.58	5,938.58	5,938.58	5,938.58	5,938.58	5,938.58	5,938.58	5,938.58	П
	7	Earning Per Share (EPS) (for continuing and discontinuing operations)			(0.00)				(П
		Basic and diluted EPS (In Rs.)	(1.09)	(4.04)	(0.78)	(7.44)	(0.93)	(3.80)	(0.70)	(7.12)	

NOTES:

Place: Vaishali, Ghaziabad

Dated: 13th August, 2021

1 The financial results are in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment Rules), 2016.

2 The above is an extract of the detailed format of unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Regularements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2021 are available on the Stock Exchange Websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's

3 The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 13th August, 2021

For and on behalf of the Board (KUSHAGR ANSAL) WHOLE TIME DIRECTOR & CEO

Place: New Delhi Date: 13th August, 2021

Total Income Profit/(loss) before tax

Net profit/(loss) after tax

Rohtas Goel Chairman and Managing Director DIN: 00003735

For and on behalf of Board of Directors

গ্রি ansal Housing **ENRICHING LIVING STYLES**

(1.33)



KESAR PETROPRODUCTS LIMITED

(CIN: L23209PN1990PLC054829) REGD. OFF.: D-7/11, MIDC, Lote Parshuram, Taluka Khed, Dist.: Ratnagiri-415722. Tel. No.: (02356) 272339 Email Id: info@kesarpetroproducts.com Website: www.kesarpetroproducts.com

Extract of Un-audited Financial Results for the Quarter and Year Ended on 30th Jun 2021

	-			(Rs. in Lakhs				
Sr. No.	Particulars	Current Year Quarter ending 30.06.2021 (Unaudited)	Previous Year Quarter ending 30.06.2020 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2021 (Audited)				
1	Total Income from Operations	4,049.15	2,313.59	12,428.90				
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items*)	38.23	(8.96)	124.50				
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items*)	38.23	(8.96)	70.60				
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items*)	38.03	(8.96)	49.86				
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-	-	-				
6	Equity Share Capital	966.73	966.73	966.73				
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	7,811.92				
	Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (for continuing & discontinued operations)-							
8.	1. Basic:	0.04	(0.01)	0.05				
	2. Diluted:	0.04	(0.01)	0.05				
1	1. The above results were reviewed by the Audit committee in its meeting held on August 12, 2021 at							

1. The above results were reviewed by the Audit committee in its meeting held on August 12, 2021 and have been approved by the Board of Directors In Its meeting held on the above said date. The auditors of the Company have carried out the limited audit of the same.

For and on behalf of Board of Directors For Kesar Petroproducts Ltd. Sd/

(Snehalata Sharma) **Executive Director** DIN 1854393

pumps since 1968 >>>

Date: 12th August, 2021

Place : Mumbai

Roto ROTO PUMPS LTD.

Regd. Off.: 'Roto House', Noida Special Economic Zone, Noida – 201305

CIN: L28991UP1975PLC004152 | Website: www.rotopumps.com Tel.: 0120-2567902-05 | Fax: 0120-2567911 | Email: investors@rotopumps.com

Extract of consolidated un-audited financial results for the first Quarter ended 30th June, 2021 Amount ₹ in Lakhe

Amount ₹ in Laki							
		Year ended					
Particulars	30-06-2021	31-03-2021	30-06-2020	31-03-2021			
	Un-audited	Audited	Un-audited	Audited			
Revenue from operations	3609.37	3,603.09	2050.70	12,652.68			
Net Profit/(loss) for the period before tax (after extraordinary items)	972.35	497.51	204.22	2,565.97			
Net Profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items)	698.44	361.02	106.32	1,833.10			
Total comprehensive Income/(loss) for the period after tax	673.32	395.98	94.91	1,793.48			
Paid-up equity share capital (Face value ₹ 2 per share)	309.08	309.08	309.08	309.08			
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet				10,020.60			
Earnings per share - Basic and diluted (not annualized) in ₹	4.52	2.33	0.69	11.86			
Key numbers of Standalone Financial Results							
Revenue from operations	3277.01 3,264.04 1931.81.		1931.81.	11,572.15			
Profit before tax	1008.37	519.85	332.34	2,715.25			
Profit after tax	750.34	323.59	237.43	1,941.74			

Note: The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results is available on the Stock Exchange websites- www.bseindia.com and on the Company website - www.rotopumps.com.

By Order of the Board

Place: Delhi Date: 13th August, 2021

Harish Chandra Gupta **Chairman & Managing Director** DIN: 00334405



Place: Mumbai

Date: August 13, 2021

Excel Industries Limited

CIN: L24200MH1960PLC011807 Regd. & Head Office:184-87, S.V. Road, Jogeshwari (West), Mumbai-400102.

Tel.:+91-22-6646-4200 Email: investors@excelind.com Website: http://www.excelind.co.in

STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL

RESULTS FOR THE QUAR	TER ENDI	ED JUNE 3	0, 2021	
			(F	Rs. in Lakhs)
		Quarter Ended		
Particulars	June 30, 2021	March 31, 2021	June 30, 2020	March 31, 2020
	Unaudited	Unaudited	Unaveliked	Auditod

П	_		(Quarter Ended		
П	Sr. No.	Particulars	June 30, 2021	March 31, 2021	June 30, 2020	March 31, 2020
П	140.		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
П	1	Total income from operations	23,191.04	21,867.81	13,346.03	74,946.60
	2	Net Profit from ordinary activities (before Tax, Exceptional items)	2,872.19	3,238.85	1,097.75	10,080.97
	3	Net Profit from ordinary activities before Tax (After Exceptional items)	2,872.19	3,238.85	1,097.75	10,080.97
	4	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional items)	2,142.54	2,010.15	821.85	7,108.59
	5	Total Comprehensive income for the period (Comprising Profit/ (loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax).	6,875.78	2,613.02	4,091.39	15,065.09
	6	Paid-up Equity Share Capital (Face value per share Rs.5/-)	628.53	628.53	628.53	628.53
	7	Earnings per share in Rs. (Face Value Rs. 5/- each) (not annualised)				
П		Basic & Diluted	17.04	15.99	6.54	56.55

STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2021

				(1	Rs. in Lakhs)
			Quarter Ended		Year Ended
Sr. No.		June 30, 2021	March 31, 2021	June 30, 2020	March 31, 2020
140.		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations	23,191.04	21,867.81	13,346.03	74,946.60
2	Net Profit from ordinary activities (before Tax, Exceptional items)	2,849.06	3,223.51	1,078.89	9,970.28
3	Net Profit from ordinary activities before Tax (After Exceptional items)	2,849.06	3,223.51	1,078.89	9,970.28
4	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional items)	2,125.42	1,991.07	807.21	7,018.95
5	Total Comprehensive income for the period (Comprising Profit/ (loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax).	4,090.48	3,159.77	1,609.51	11,470.48
6	Paid-up Equity Share Capital (Face value per share Rs.5/-)	628.53	628.53	628.53	628.53
7	Earnings per share in Rs. (Face Value Rs. 5/- each) (not annualised)				
	Basic & Diluted	16.91	15.84	6.42	55.84

Note: The above is an extract of detailed format of the unaudited financial results for the Quarter Ended June 30, 2021, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the unaudited financial results for the Quarter Ended June 30, 2021, is available on the Stock Exchanges websites www.bseindia.com and www.nseindia.com. The same is also available on the company's website www.excelind.co.in.

FOR EXCEL INDUSTRIES LIMITED (ASHWIN C. SHROFF) **EXECUTIVE CHAIRMAN** DIN:00019952



Total Income from Operations

Earnings per share :- (of ₹10/- each) (for continuing and discontinuing operations)

6 Equity Share Capital

previous year

a) Basic (₹)

b) Diluted (₹)

Date: 12.08.2021

Place: New Delhi

ENERGY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

CIN - L85110KA1995PLC017003 Regd. Office: Village - Hulugunda, Taluka - Somawarpet, Dist - Kodagu, Karnataka - 571233 E-mail:edclcal@edclgroup.com; Website: www.edclgroup.com

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2021 (₹ In Lakhs Standalone Results Consolidated Results For The Year Ended For Three Months Ended For The Year Ende For Three Months Ended Audited 132.95 1,500.06 445.37 3,351.76 Net Profit / (Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items) (146.15) (246.30) (65.19) (612.60) (1,023.51)3 Net Profit / (Loss) for the period before tax (After Exceptional and / or Extraordinary items) (160.83) (204.73) (44.06)(472.29) (1,023.51) (249.37 (612.60) 4 Net Profit / (Loss) for the period after tax (After Exceptional and / or Extraordinary items) (160.83) (204.73) (249.37) (49.50)(83.73) (260.42) (455.36) (632.02) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] (191.47)(245.64)(158.34)(250.48)(81.06) (456.75)(621.38)(39.55)4,750.00 4.750.00 4.750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the 11,269.53 4,192.46

(0.52)

Notes:

1) The Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and three months ended June 30, 2021 have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on August 12, 2021. The Statutory Auditors of the Company have carried out limited review of the above results for Quarter ended. June 30, 2021

(0.34) (0.43)

(0.43)

2) The above is an extract of the detailed format of Quarter and three months ended Financial Results for June 31, 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Yearly Financial Results are available on the Stock Exchanges Websites www.nseindia.com, www.bseindia.com and on Company's website www.edclgroup.com

> For and on behalf of the Board of Directors **Energy Development Company Limited** Vinod Kumar Sharma (Executive Director) (DIN - 02879206)

AMBA ENTERPRISES LIMITED

Regd.Off: S. No. 132, H No. 1/4/1, Premraj Industrial Estate, Shed No. B-2,3,4, Dalvi Wadi, Nanded Phata, Pune-411041. CIN: L99999PN1992PLC198612, Phone No.: 022-28701692 Email Id: ambaltd@gmail.com Website: www.ambaltd.com STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30.06.2021 Amount in Rs.

			Amount mitto.
Quarter ended on 30.06.2021	Quarter ended on 31.03.2021	Quarter ended on 30.06.2020	Year ended on 31.3.2021
408,557,658	401,615,152	71,508,314	1,115,761,606
15,869,909	11,525,868	2,518,909	30,164,094
1			
10,488,702	8,664,369	2,254,950	21,640,100
63,302,400	63,302,400	63,302,400	63,302,400
1			
-	128,315,670	-	128,315,670
1			
0.83	0.67	0.18	1.71
1			
0.83	0.67	0.18	1.71
	30.06.2021 408,557,658 15,869,909 10,488,702 63,302,400	30.06.2021 on 31.03.2021 408,557,658 401,615,152 15,869,909 11,525,868 10,488,702 8,664,369 63,302,400 63,302,400 - 128,315,670 0.83 0.67	30.06.2021 on 31.03.2021 on 30.06.2020 408,557,658 401,615,152 71,508,314 15,869,909 11,525,868 2,518,909 10,488,702 8,664,369 63,302,400 63,302,400 63,302,400 63,302,400 - 128,315,670 - 0.83 0.67 0.18

- The above unaudited Financial Results of the company were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at the meeting held on 13th August 2021.
- The above financial results have been prepared in accordance with the Companies (Indian accounting Standards) Rules. 2015 (Ind AS as amended), prescribed u/s 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder.
- The company has taken into account the possible impacts of COVID-19 in preparation of the above standalone financial results including but not limited to its assessment of liquidity and going concern assumption, recoverable values of its financial and non-financial assets, impact on revenue and on cost budgets in respect of fixed price contracts, impact on leases and impact on effectiveness of its hedging relationships. The Company has considered internal and certain external sources of information including reliable credit reports, economic forecasts and industry reports up to the date of approval of above standalone financial results and expects to recover the carrying amount of its assets. The impact of COVID-19 on the standalone financial results may differ from that estimated as at the date of approval of the standalone financial results.

Figures for previous periods have been regrouped / reclassified wherever considered necessary FOR AMBA ENTERPRISES LIMITED

Place: Pune Date: 13th August 2021 Sarika Bhise

DECCAN CEMENTS LIM CIN: L26942TG1979PLC002500 Regd. Office: "Deccan Chambers", 6-3-666/B, Somajiguda, Hyderabad - 500082.

Ph: 040-23310168 Fax: 040-23318366 Email: Secretarial@deccancements.com Website: www.deccancements.com

Extract of the Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30 June 2021

			(Rs. ir	n Lakhs except	per share data
		Q	uarter Ende	d	Year Ended
SI. No.	Particulars	30.06.2021	31.03.2021	30.06.2020	31.03.2021
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total income from Operations	22423.63	21383.30	13861.24	75795.18
2	Net Profit for the period (before Tax and Exceptional items)	4946.03	3063.49	3507.85	15536.03
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional items)	4946.03	3063.49	3507.85	15536.03
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional items)	3683.33	2207.90	2611.84	11512.75
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	3683.33	2202.90	2611.84	11507.75
6	Paid-up Equity Share Capital	700.38	700.38	700.38	700.38
7	Earnings Per Share (Rs.5/- each)				
	1. Basic	26.30	15.76	18.65	82.19
	2. Diluted	26.30	15.76	18.65	82.19

Place: Hyderabad

Date : August 13, 2021

Date: 13th August, 2021

Place : Chennai

- a) The above results for the quarter were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at the meeting held on 13 August 2021.
- b) The above is an extract of the detailed format of financial results filed for the guarter ended 30 June 2021 with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid results are available on the Stock Exchange Websites i.e., Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com) and National Stock Exchange (www.nseindia.com) and also on the Company's website (www.deccancements.com).).

for DECCAN CEMENTS LIMITED

P Parvath

Managing Director

INDIAN TERRAIN FASHIONS LIMITED Regd. Office: No. 208, Velachery Tambaram Road, Naravanapuram, Pallikaranai, Chennai - 600 100. E-mail: response.itfl@indianterrain.com; Website: www.indianterrain.com Tel: +91-44-4227 9100, CIN: L18101TN2009PLC073017

Extract of Unaudited Standalone Financial Results (Rs. In Crore for the Quarter ended 30th June 2021 Year Ended Ended 30-Jun-21 30-Jun-20 31-Mar-21 Total income from operations 27.53 13.39 213.17 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) (13.02)(32.40)(54.25)Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items (13.02)(32.40)(54.25)Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) (12.10)(32.25)(30.75)Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (12.08)(32.13)(30.37)(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital (Face Value of Rs.2/- each) 8.22 7.59 8.22 Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year 8 Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations) (8.50)(7.90)- Basic: (In Rs.) (2.95)(8.50) - Diluted: (In Rs.) (2.95)(7.90)

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Standalone Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the same are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity. (www.bseindia.com, www.nseindia.com & www.indianterrain.com)

2. The above unaudited results for the quarter ended 30^h June, 2021 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 13^h August 2021. These results have been subjected to limited review by the statutory auditors of the Company. These unaudited financial results have been prepared in accordance with the recongnition and measurement principals laid down under Indian Accounting Standard (Ind AS) - 34" Interim Financial Reporting" as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with releven

. The Company operates exclusively in the segment of apparel and accessories. Consequently there is no requirement of disclosure in th context of Indian Accounting Standards - 108 (Ind AS 108) "Operating Segments".

For and on behalf of Board of Directors Indian Terrain Fashions Limited Charath Ram Narsim

SILICON VALLEY INFOTECH LIMITED CIN: L15311WB1993PLC061312

(0.18)

(0.18)

(0.55)

(0.55)

Regd Office: 10, Princep Street, 2nd Floor, Kolkata - 700072 Email: info@siliconvalleyinfo.net, website: www.siliconvalleyinfo.co.in Phone No.: 033-40022880. Fax: 033-22379053 EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2021 (Rs. In Lacs)

S. No.	Particulars	Quarter Ended 30.06.2021 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.2021 (Unaudited)	Quarter Ended 30.06.2020
1	Total Income from Operations	0.00	0.00	0.00
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,		0.00	0.00
ľ			(12.60)	(0.73)
3	Exceptional and/or Extraordinary items#)	(5.29)	(12.68)	(9.72)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax			
	(after Exceptional and/or Extraordinary	(5.20)	(42.60)	(0.73)
I. I	items#)	(5.29)	(12.68)	(9.72)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax			
	(after Exceptional and/or Extraordinary	(= 00)	(40.00)	(0.00)
_	items#)	(5.29)	(12.68)	(9.72)
5	Total Comprehensive Income for the period			
	[Comprising Profit / (Loss) for the period			
	(after tax) and Other Comprehensive			
	Income (after tax)]	(5.29)	(12.68)	(9.72)
6	Equity Share Capital	1296.80	1296.80	1296.80
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)			
	as shown in the Audited Balance Sheet of			
	the previous year	-		-
8	Earnings Per Share (of Rs.1/- each) (for			
	continuing and discontinued operations)			
	1. Basic:	(0.00)	(0.01)	(0.01)
	2. Diluted:	(0.00)	(0.01)	(0.01)
	te : a) The above is an extract of the detailed forms			

iled with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosur Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchanges website i.e. www.bseindia.com and www.cse-india.comandontheCompany's website: www.siliconvalleyinfo.co.in

b) The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financia item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote. c) # - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in ccordance with Ind-AS Rules /AS Rules, whichever is applicable.

For SILICON VALLEY INFOTECH LTD Sd/- SANTOSH KUMAR JAIN, Managing Director DIN: 00174235

Date: 11th August, 2021 **BLUE CHIP INDIA LIMITED**

CIN: L65991WB1993PLC060597 Regd. Office: 10 Princep Street. 2nd Floor. Kolkata - 700072

E:info@bluechipind.net, W: www.bluechipind.con Phone : 91-33-4002 2880, Fax :91-33-2237 9053 EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2021

S. No.	Particulars		Quarter Ended 31.03.2021 (Unaudited)	Quarter Ended 30.06.2020 (Unaudited)
1	Total Income from Operations	0.11	0.05	0.00
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,			
	Exceptional and/or Extraordinary items#)	(2.89)	(10.35)	(12.13)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax			
	(after Exceptional and/or Extraordinary			
	items#)	(2.89)	(10.35)	(12.13)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax			
	(after Exceptional and/or Extraordinary			
	items#)	(2.89)	(10.35)	(12.13)
5	Total Comprehensive Income for the period			
	[Comprising Profit / (Loss) for the period			
	(after tax) and Other Comprehensive			
	Income (after tax)]	59.70	52.87	40.41
6	Equity Share Capital	1106.09	1106.09	1106.09
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)			
	as shown in the Audited Balance Sheet of			
	the previous year	-		-
8	Earnings Per Share (of Rs.2/- each) (for			
	continuing and discontinued operations)			
	1. Basic:	(0.01)	(0.02)	(0.02)
	2. Diluted:	(0.01)	(0.02)	(0.02)

iled with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosur Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are vailable on the Stock Exchanges website i.e. www.nseindia.com, www.bseindia.com and ww.cse-india.com and on the Company's website: www.bluechipind.com b) The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financia

Note: a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results

tem(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote.
) # - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss is

ccordance with Ind-AS Rules /AS Rules, whichever is applicable.

For BLUE CHIP INDIA LIMITED Sd/- **Arihant Jain,** Managing Director DIN: 00174557 Date: 12th August, 2021

ATN INTERNATIONAL LIMITED

CIN : 165993WR1983PLC080793

Regd Office: 10, Princep Street, 2nd Floor, Kolkata - 700072 Email: info@atninternational.co.in, website: www.atninternational.in Phone No.: 033-40022880, Fax: 91-33-22379053
EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2021 (Rs. In Lacs)

S. No.	Particulars	Quarter Ended 30.06.2021 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.2021 (Unaudited)	Quarter Ended 30.06.2020 (Unaudited)
1	Total Income from Operations	0.90	4.08	0.56
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,			
	Exceptional and/or Extraordinary items#)	(7.19)	(12.89)	(14.68)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax			
	(after Exceptional and/or Extraordinary			
	items#)	(7.19)	(12.89)	(14.68)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax			
	(after Exceptional and/or Extraordinary			
	items#)	(7.19)	(12.89)	(14.68)
5	Total Comprehensive Income for the period			
	[Comprising Profit / (Loss) for the period			
	(after tax) and Other Comprehensive			
	Income (after tax)]	(7.19)	(12.89)	(14.68)
6	Equity Share Capital	1578.00	1578.00	1578.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)			
	as shown in the Audited Balance Sheet of			
	the previous year	-		-
8	Earnings Per Share (of Rs.4/- each) (for			
	continuing and discontinued operations)			
	1. Basic:	(0.02)	(0.03)	(0.04)
- 1	2. Diluted:	(0.02)	(0.03)	(0.04)

Note: a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial

Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual rinancial Results are available on the Stock Exchanges website i.e. www.nseindia.com www.astiniternational.in. b) The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote.

DIN NO. 00174235

c) # - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in cordance with Ind-AS Rules /AS Rules, whichever is applicable. By order of the Board For ATN INTERNATIONAL LIMITED
Sd/- Santosh Kumar Jain, Managing Director Place : Kolkata

Managing Director & CEO DIN: 06497859 Date: 12th August, 2021

ऐक्सिस बैंक आधिपत्य नोटिस

रिटेल एसेट्स सेंटर : प्रथम तल, जी-4/5, बी, सेक्टर-4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226010 कारपोरेट आफिस : तृतीय तल, ब्लाक-बी, बाम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउण्ड, पाण्डुरंग बुधाकर मार्ग, वर्ली मुम्बई-400 025 रुजिस्टर्ड आफिस : 'त्रिशूल', तृतीय तल, समराथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डेन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380 006

जबिक अधोहस्ताक्षरी, ऐक्सिस बैंक लि0 के प्राधिकारी, ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेन्ट) रूल, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किये गये। उक्त वर्णित उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में असफल रहे हैं, अतः एवं उक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित कियाँ जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **कब्जा** ले लिया है। उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथा उक्त सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई सौदा **ऐक्सिस बैंक लि0** के साथ उक्त नोटिस में वर्णित वार्षिक ब्याज, अनुषंगी व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि समेत से प्रभावी, मॉर्टेगेज के विषयाधीन होगा। ऋणी/सह—ऋणी/बन्धकर्ता एवं जमानतकर्त का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

क्र. स.	चन) कर सकते हैं। ऋणी/ सह—ऋणी/जमानतकर्ता(ओं) का नाम एवं पता	सुरक्षित सम्पत्ति का विवरण (अचल सम्पत्ति)	कुल बकाया धनराशि
1	श्री मुव प्रसाद गुप्ता (ऋणी) पुत्र श्री रामदीन गुप्ता निवासी 8 सेक्टर—15, सुनेहरी देवी, निकट वाटर टैंक, एटा, उत्तर प्रदेश—207001 श्री अरविन्द गुप्ता (सह—ऋणी) पुत्र श्री रामदीन गुप्ता	रिश्वत मकान नम्बर 32, खसरा नम्बर 59, सेक्टर 20. मोहल्ला लालपुर, मोजा भागीपुर चुंगी बहार तहसील एवं जिला एटा हो में प्रकल—112.50 वर्ग मी0 चौहद्दी: पूर्व: प्लाट बखेडी, पश्चिम : मकान किशन	रू. 42,42,449.14 ए रू. 1,31,145.16 दिनांक 17.04.2021 न देय ब्याज व अन्य ख
	त्रा अर्पपप पुरा। (सिंह ऋगा) युत्र त्रा रागपान पुरा। निवासी निकट आगरा चुंगी, लाल पुर, निकट मन्दिर, आगरा रोड़, एटा–207001 एवं: द्वारा मेसर्स गुरूजी एसोसिएट, नवीन मण्डी स्थल, एटा–207001	लाल, उत्तर : सड़क 10 फुट बौड़ी उसके बाद हरनतायण एवं सरदार का प्लाट, दक्षिण: हबलाल का खेत वर्तमान में गेस्ट हाउस ज्ञानेन्द्र पाण्डे जी	देय सूचना की तिथि 23.04.2021 कब्जा दिनांक
2	मेसर्स ओम साई केमिकल्स (ऋणी) द्वारा कचारा सिकन्दरा राव, हाथरस, उत्तर प्रदेश–204211	स्थित गाटा नं0-808/2, मौजा कचारा, मरहरा- कचारा रोड़ पोस्ट-कचारा, तहसील- सिकन्दरा राव,	10.08.2021 रू. 19,50,745.30 (ब्याज की गणना
	द्वारा प्रोपाइटर नीरज कुमार श्री नीरज कुमार (सह—ऋणी) पुत्र श्री कैलाश चन्द	जिला– हाथरस, उठ प्र0–204211 जोकि श्री नीरज कुमार के नाम क्षेत्रफल–1540.00 वर्ग मीठ चौडद्दी: पूर्व: सम्पत्ति रतन लाल, परिचम : हाईवे	01.09.2020 तक) देय सूचना की तिथि 20.04.2021
3	निवासी कचारा सिकन्दरा राव, हाथरस, उत्तर प्रदेश—204211 मेसर्स श्री शनिदेव ट्रेडर्स (ऋणी)	मरहरा से कचारा रोड़, उत्तर: सम्पत्ति होरी सिंह , दक्षिण: सम्पत्ति राम लखन सिंह स्थित निवासी गांधी नगर, अमनपुर, कासगंज, उठप्रठ	कब्जा दिनांक 10.08.2021 रू. 10,47,811.60
	नियंत्र शानियप्र ६६६ (२६-१) द्वारा मेन मार्केट, अमनपुर, निकट पुराना बिजलीघर, कांशीराम नगर, कासगंज— 207241 द्वारा प्रोपाइटर	207241 क्षेत्रफल-38.84 + 36.83 + 24.00 वर्ग मी0 चौहद्दी: पूर्व: केता सन्तोष कुमार का मकान एवं गली	दिनांक 17.04.2021 देय ब्याज व अन्य ख
	श्री रिषम गर्ग (सह—ऋणी) पुत्र श्री सन्तोष कुमार गर्ग श्री सन्तोष कुमार (जमानतकर्ता)	पश्चिमः सम्पत्ति गिरीश चन्द्, उत्तरः सम्पत्ति गिरीश चन्दं दक्षिणः राकेश की सम्पत्ति एवं : पूर्वः शारदा सरन का मकान (मधुराधीश	देय सूचना की तिथि 23.04.2021 कब्जा दिनांक
	पुत्र श्री आक्षन लाल निवासी गांधी नगर, मन्दिर से सटा, अमनपुर, कासगंज, उठप्रठ 207241	मन्दिर) पश्चिम : केता (सन्तोष कुमार) का प्लाट उत्तर : शंकर भगवान जी का मन्दिर दक्षिण : गली उसके बाद अग्रवाल समाज का चौक एवं : पूर्व: सम्पत्ति शंकर लाल पश्चिम : सम्पत्ति	10.08.2021
4	श्री फिरोज खान (ऋणी)	विकेता (गिरीश चन्द एवं नरेश चन्द) उत्तर : सम्पत्ति विकेता (गिरीश चन्द एवं नरेश चन्द) दक्षिण : रास्ता रिधत मं0नं0–339/1, राजगढ़ वार्ड नं0–15, निकट	₹ 2,44,319.00
	पुत्र अब्दुल वारी श्री नासिर खान (सह—ऋणी) पुत्र अब्दुल वारी	अंजुमन स्कूल, झांसी, उत्तर प्रदेश 284001 क्षेत्रफल—167.23 वर्ग मी0 चौड्ददी:	रू. 2,25,576.00 दिनांक 15.05.2021 देय ब्याज व अन्य ख
	निवासी मं0नं0–339/1, राजगढ़ वार्ड नं0–15, निकट अंजुमन स्कूल, झांसी, उत्तर प्रदेश 284001 एवं: निवासी मं0नं0–137, शान्ति नगर, राजगढ़, झांसी, उत्तर प्रदेश 284135	पुदः (कशारा का मकान, पश्चिम : मनीराम का मकान खत्तर : सड़क 10 फुट चौड़ी, दक्षिण: राजाराम का प्लाट	देय सूचना की तिष् 15.05.2021 कब्जा दिनांक
5	श्री प्रशान्त श्रीवास्तव (ऋणी) पुत्र श्री अशोक कृमार श्रीवास्तव	स्थित मकान नं0 67/1, निकट आईटीआई कालोनी मौजा लहर गिर्द निकट मकान फिज्जू बाबा (फिरोज	11.08.2021 रू. 18,43,785.00 दिनांक 19.04.2021
	पुत्र आ अशाक कुमार आवास्ताव निवासी आरबी—II—एमए—520/बी, रेलवे कालोनी निकट बाल मन्दिर, झौँसी उत्तर प्रदेश, भारत 284001 एवं : द्वारा मेसर्स सदगुरू ट्रेडर्स निकट राम मन्दिर प्रेमगंज	इन्जीनियर) झाँसी उत्तर प्रदेश, भारत 284001 जोकि प्रशान्त श्रीवास्तव के नाम	देय ब्याज व अन्य स
	सिपरी बाजार झाँसी उत्तर प्रदेश, भारत 284001 श्रीमती नीता (सह—ऋणी), पत्नी श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव निवासी आरबी—II—एमए—520 / बी, रेलवे कालोनी निकट	चौहद्दीः पूर्वः श्रीमती ममता का मकान पश्चिमः मन्नी लाल अन्य का प्लाट उत्तर ः अन्य का प्लाट,	26.04.2021 कब्जा दिनांक 11.08.2021
3	बाल मन्दिर, झाँसी उत्तर प्रदेश, भारत 284001 श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह (ऋणी) पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी मं0 नं0–2011 प्रेमगंज अटरी कालोनी, सिपरी	दक्षिणः सङ्क स्थित मं0नं0 385/1, अराजी नं0 1826, मौजा लहर गिर्द, निकट हर किशन कालेज झांसी 284001, उत्तर	रू. 18,14,983.00 दिनांक 22.04.2021
	बाजार, एफ–1 (एफ–21). झांसी, उत्तर प्रदेश 284003 भारत एवं: मेसर्स डी०के० एण्ड कम्पनी (सह—ऋणी) श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह	प्रदेश क्षेत्रफल—1500.00 वर्ग फुट चौहद्दीः	देय ब्याज व अन्य ख देय सूचना की तिशि 26.04.2021
	निवासी मं0 नं0-2011 प्रेमगंज अटरी कालोनी, सिपरी बाजार, झांसी, उत्तर प्रदेश 284003 भारत श्रीमती सुनीता सिंड (सह-ऋणी) पत्नी धीरेन्द्र कुमार सिंह निवासी मं0 नं0-2011 प्रेमगंज अटरी कालोनी, सिपरी	पश्चिम : यादव जी का मकान उत्तर : कुशवाहा जी का मकान,	कब्जा दिनांक 11.08.2021
,	बाजार, एफ1 (एफ21), फ्रांसी, उत्तर प्रदेश 284003 भारत श्री सोम दत्त (ऋणी) पुत्र सोम पाल निवासी मं0 नं0-43, चमरयाना, प्रेम नगर, झांसी खास, झांसी उत्तर प्रदेश 284001	स्थित मं0नं0 428/12ए, मौजा लहर गिर्द, आबादी ब्राहम नगर, निकट गुरू हरकिशन डिग्री कालेज, परगना एवं जिला खांबी 20400 जला गरेश	रू. 21,28,801.00 दिनांक 19.04.2021
	उत्तर प्रदेश 284001 एवं: टेक्नी II / संघानशाला ह्रारा नार्दन सेन्द्रल रेलवे झांसी, रेलवे वर्क शाप (वागन रेपयर फैक्ट्री) झांसी उत्तर प्रदेश 284001	एवं जिला झांसी 284001, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल- 41.82 वर्ग फुट चौडद्दीः पूर्वः राजकृमार सेन का मकान,	देय ब्याज व अन्य स देय सूचना की तिथि 20.04.2021
	कवड़ा) आसा उत्तर १४६च २८८००१ श्रीमती मार्डक्यो (सह-ऋणी) पत्नी श्री सोम दत्त निवासी मंठ नं0-43, चमरयाना, प्रेम नगर, झांसी खास, झांसी उत्तर प्रदेश २८४००१	पूबः राजकुमार सन का नकान, पश्चिम : विकंता का प्लाट (श्रीमती रजनी साहू) उत्तर : नाला उसके बाद अन्य की सम्पत्ति, दक्षिणः सड़क	कब्जा दिनांक 11.08.2021
3	श्री राज कुमार (ऋणी)) पुत्र श्री रतन लाल निवासी 77 / 2, संजीव पोल्टी फार्म के पीछे, सिविल लाइन्स, झांसी, उत्तर प्रदेश— 284001	रिधत 674/1 भाग आराजी नं0 445, वार्ड नं0 15, मोडल्ला राजगढ़, तहसील एवं जिला झांसी क्षेत्रफल—116.17 वर्ग मी0	रू. 5,89,155.00 दिनांक 22.04.2021 देय ब्याज व अन्य स
	एवं: 299, झोकन बाग, सिविल लाइन्स, झांसी, बैंक आफ बडोदा के पीछे, राज एसोसिएट, झांसी, उ०प्र0— 284003 श्रीमती कल्पना वाल्मीकि (सह—ऋणी)	विलेख के अनुसार चौहद्दीः पूर्वः चौड़ी सड़क, पश्चिम : विकेता का मकान, उत्तर : विकेता का मकान, दक्षिणः श्रीमती पड़या का मकान	देय सूचना की तिष्टि 22.04.2021
	पत्नी राज कुमार वाल्मीकि निवासी 77/2, संजीव पोल्टी फार्म के पीछे, सिविल लाइन्स, झांसी, उत्तर प्रदेश— 284001	साइट के अनुसार चौहद्दीः पूर्वः श्री अवरार हसन का मकान नं0 670/ए, पश्चिम : श्री मुज्जीबुल का मकान, उत्तर : विकेता का मकान, दक्षिणः चौड़ी सड़क	कब्जा दिनांक 11.08.2021
)	मैसर्स राघा कृष्ण इन्टरप्राइसेस (ऋणी) द्वारा २९ सी, न्यू मण्डी भोपा रोड़, मुजफ्करनगर— 251001 द्वारा प्रोपाइटर सविता रानी	स्थित २९ सी, न्यू मण्डी भोपा रोड, मुजपफरनगर— 251001 जोकि श्रीमती ग्रेमवती के नाम	रू. 15,6,595.00 दिनांक 17.04.2021 देय ब्याज व अन्य र
	श्रीमती सविता रानी (जमानतकर्ता) पत्नी मोहन लाल पुत्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता श्री मोहन लाल (जमानतकर्ता) पुत्र सुमत प्रसाद श्री वैमव बंसल (जमानतकर्ता) पुत्र मोहन लाल	क्षेत्रफल-143.50 वर्ग गज चौडद्दीः पूर्वः सम्पत्ति नम्बर 30 सी, पश्चिमः सम्पत्ति नम्बर 28 सी	देय सूचना की तिष् 20.04.2021 कब्जा दिनांक
	श्री पंत्रपंत्रपंत्रपंत्रपंत्रपंत्रपंत्रपंत्र	उत्तर : गली, दक्षिणः सड़क	11.08.2021
0	श्री राज करन यादव (ऋणी) पुत्र श्री जागेश्वर यादव निवासी चिलाकाना रोड़ गली नंo 4ए सम्राट विकम कालोनी	स्थित प्लाट नं0/खसरा नं0 65/1 सेक्टर नं0 10, मित्रलोक कालोनी, परगना—केन्द्रीयदून, मौजा— कृनवाली, देहरादून, उत्तराखण्ड—248001	रू. 7,30,391.00 दिनांक 22.04.2021 देय ब्याज व अन्य र
	सहारनपुर, उत्तर प्रदेश–247001 एवः नूतन ज्वेलर्स, रस्तोगी मार्केट, रामानन्दी बाजार सहारनपुर, उत्तर प्रदेश–247001	क्षेत्रफल—175.581 वर्ग मी0 चौहद्दी: पूर्व: अन्य की सम्पत्ति	देय सूचना की तिषि 23.04.2021
	श्री रोहित यादव (सह—ऋणी) पुत्र श्री राज करन यादव निवासी 14/4212ए, लेन ए, सम्राट विक्रम कालोनी, निकट	पश्चिम : सङ्क उत्तर : सङ्क दक्षिण : अन्य की सम्पत्ति	कब्जा दिनांक 11.08.2021
1	दुर्गा मन्दिर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश-247001 मेसर्स फैस इन्टरप्राइसेस (ऋणी) हारा 389/03, सट्टी स्ट्रीट, रूडली,हरिद्वार, उत्तराखण्ड-	स्थित मंकान (भारत नगर बन्दा रोड़) प्लाट खसरा नं0 393 मिन, मोहल्ला —माहीग्राम रूड़की, (अन्दर हादूद) नगरपालिका परिषद रूड़की (निकट नयाब पब्लिक	रू. 13,63,240.40 दिनांक 13.05.202 (ब्याज की गणना
	247667 द्वारा प्रोपाइटर अकरम खान श्री अकरम खान (जमानतकर्ता) पुत्र फुरखान खान निवासी ९१०, माहीग्राम बन्धा रोड्, भारत नगर, रूड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड—247667	नगरपालिका पारबंद रूड्का (निकट नयाब पाब्लक रुकूल), तहसील एवं परगना रूड्की, रूड्की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड—247667 क्षेत्रफल—158.05 वर्ग मी0	31.03.2021 तक) देय सूचना की तिथि
	एवं: निवासी मं0नं0 389/13, इमली रोड, सट्टी स्ट्रीट, मोहल्ला रूड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड—247667	चौहद्दीः पूर्वः मुख्यालय इसरार, पश्चिमः सड़क, उत्तरः मुख्यालय इकबाल, दक्षिणः अकबर का प्लाट	15.05.2021 कब्जा दिनांक 11.08.2021
2	श्री राव सदाकत हुसैन (ऋणी) पुत्र राव शराफत अली निवासी मंकान नम्बर 61, पीरान कलियार मुबारबपुर,	स्थित मंकान नम्बर 234, पीरान कलियार, साबिर कालोनी, मुबारबपुर, रूड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड— 247667 क्षेत्रफल—117.10 वर्ग मी0	रू. 20,25,012.00 दिनांक 15.05.2021 देय ब्याज व अन्य र
	कड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड–247667 एवं: द्वारा होटल सबरी गुलशन, 1 पीरान कलियार सोहलापुर रोड़, रूड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड–247667	क्षत्रफल—117.10 वर्ग मा0 चौडद्दी: पूर्वः सङ्क पश्चिम : वसीम का प्लाट	रू. 29,738.95 (ब्याज की गणना 01.07.2020 तक)
		उत्तर: हामिद की भूमि द क्षिण : रास्ता	देय सूचना की तिष् 17.05.2021 कब्जा दिनांक
13	मोo ताहिर (ऋणी) पुत्र मोo यामीन	स्थित म0 नं0 43 मयूर विहार, खसरा नं0 93 सी एच, पुराना नं0 255, कन्दोली, सहस्त्रधारा रोड़, निकट	11.08.2021 रू.11,63,245.00 दिनांक 20.05.2021
	ह्वारा कासमास एजूकेयर सर्विशेज प्रा0 लि0 प्रथम तल 17, न्यू सर्वे रोड़ विकास भवन के सामने, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड 248001	अम्बेडकर हास्टल, पुलिस स्टेशन रायपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड 248001 क्षेत्रफल—260.35 वर्ग0मी0	देय ब्याज व अन्य ख देय सूचना की तिथि 25.05.2021
	मो ० सुहेब (सह—ऋणी) पुत्र मो० ताहिर नि० तपोवन इन्क्लंब नाला पानी देहरादून, उत्तराखण्ड 248001 एवं : द्वारा कासमास एजूकेयर सर्विस प्रा० लि० प्रथम तल 17, न्यू सर्वे रोड़ विकास भवन के सामने, सहस्त्रधारा रोड़,	चौहद्दी : पूर्व: कालोनी प्लाट नं0 42 पश्चिम : कालोनी प्लाट नं0 44, उत्तर : सड़क,	25.05.2021 कब्जा दिनांक 11.08.2021
14	देहरादून, उत्तराखण्ड 248001 श्री विपिन कुमार (ऋणी), पुत्र गोरधन सिंह	दक्षिणः कालोनी प्लाट स्थित टी.एच.डी.सी. कालोनी, देहरा खास प्लाट नं0 69, निकट साई बाबा इन्क्लेव, देहरादून उत्तराखण्ड	₹5. 25,36,559.00 ₹
	पुत्र गांधवन ।संघ श्रीमती मनीता देवी (सह—ऋणी) पत्नी विपिन कुमार निवासी टी.एच.डी.सी. कालोनी देहरा खास प्लाट नं० 69,	ानकट साइ बाबा इन्तलव, वहरावून उत्तराखण्ड 248001, जोकि विपिन कुमार के नाम क्षेत्रफल-51.82 वर्ग मी0 एवं 105.26 वर्ग मी0 (कुल कवर्ड क्षेत्रफल)	दिनांक 20.05.2021 देय ब्याज व अन्य ख
	निकट साई बाबा इन्क्लेव, देहरादून उत्तराखण्ड 248001	बाहदरी: पूर्व: सुबोध रातूड़ी की भूमि, पश्चिम : हेमन्त कुमार की सम्पत्ति, उत्तर : टी.एच.डी.सी. प्लाट नं0 68, दक्षिण: सड़क	देय सूचना की तिशि 25.05.2021 कब्जा दिनांक
दिन	गंक : 14.08.2021		11.08.2021 (प्रा0 अधिकारी) एक्सिस बैंक लि



ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड

(नि.प.सं.एल 29222 डीएल 1976 पीएलसी 008129) पंजीकृत कार्यालय : कोर-2, पहली मंजिल, "स्कोप मीनार", प्लॉट नं.2ए व 2वी, लक्ष्मी नगर जिला केन्द्र, दिल्ली-110 091.

म्धान कार्यालय : "निकर्षण सदन", एच.बी.कोलनी मेन रोड, सीतम्मधारा, विशाखपट्टणम-530 022. ई-मेल : sreekanth@dcil.co.in, दूरभाष : 0891-2523250, फैक्स : 0891-2560581, वेबसाइट : www.dredge-india.com दिनांक 30 जून, 2021 को समाप्त वर्ष संबंधी स्वतः अपरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार

					(रुपये लाखो में)
क्र. सं.	विवरण	दिनांक 30-06-2021 को समाप्त तिमाही	दिनांक 31-03-2021 को समाप्त तिमाही	दिनांक 30-06-2020 को समाप्त तिमाही	दिनांक 31-03-2021 को समाप्त वर्ष
1.	प्रचालनों से कुल आय	11970.09	21288.29	16822.22	76692.42
2.	इस अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवादात्मक और/या असाधारण मदों के पहले)	(2245.33)	(10578.96)	1177.43	(17059.04)
3.	इस अवधि के लिए कर-पूर्व निवल लाम/ (हानि) (अपवादात्मक और/या असाधारण मदों के बाद)	(2245.33)	(11007.52)	1177.43	(17059.04)
4.	इस अवधि के लिए कर-पश्चात् निवल लाभ/ (हानि) (अपवादात्मक और/या असाधारण मदों के बाद)	(2271.72)	(11081.00)	1145.40	(17241.40)
5.	इस अवधि के लिए कुल व्यापक आय (इस अवधि के लिए (कर-पश्चात्) लाभ/हानि और अन्य व्यापक आय (कर-पश्चात्) से युक्त)	(2271.72)	(10652.45)	1145.40	(16812.85)
6.	ईक्विटी शेयर पूँजी	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00
7.	आरक्षितियाँ (पुनर्मूल्यांकित आरक्षितियों को छोडकर)		-		137411.54
8.	प्रति शेयर आमदनी (ई.पी.एस.)(रुपयों में)				
	(क) मूल	(8.11)	(38.04)	4.09	(60.05)
	(ख) फीका	(8.11)	(38.04)	4.09	(60.05)

टिप्पणी : उपर्युक्त विवरणी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (अनिवार्यताओं और प्रकटन की अपेक्षाओं संबंधी सूचीकरण विनियम, 2015 के विनियम 33 और विनियम 52 के अंतर्गत शेयर बाजारों के सम्मुख फाइल किए गए तिमाही परिणामों के विस्तृत प्रपत्र का सार है । इसका पूरा प्रपत्र शेयर बाजारों के वेब-साइटों - www.nseindia.com, www.bseindia.com, www.cseindia.com और इस कम्पनी के वेबसाइट www.dredge-india.com में उपलब्ध है । मंण्डल के आदेश से कृते ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड स्थान : विशाखपट्नम ह०/- (जीवाईवी विक्टर) प्रबंध निदेशक

Z Rois

since 1968 >>>

Roto ROTO PUMPS LTD.

Regd. Off.: 'Roto House', Noida Special Economic Zone, Noida - 201305

CIN: L28991UP1975PLC004152 | Website: www.rotopumps.com Tel.: 0120-2567902-05 | Fax: 0120-2567911 | Email : investors@rotopumps.com

Extract of consolidated un-audited financial results for the first Quarter ended 30th June, 2021

Amount ₹ in Lakhs

		Year ended			
Particulars	30-06-2021	31-03-2021	30-06-2020	31-03-2021	
	Un-audited	Audited	Un-audited	Audited	
Revenue from operations	3609.37	3,603.09	2050.70	12,652.68	
Net Profit/(loss) for the period before tax (after extraordinary items)	972.35	497.51	204.22	2,565.97	
Net Profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items)	698.44	361.02	106.32	1,833.10	
Total comprehensive Income/(loss) for the period after tax	673.32	395.98	94.91	1,793.48	
Paid-up equity share capital (Face value ₹ 2 per share)	309.08	309.08	309.08	309.08	
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet				10,020.60	
Earnings per share - Basic and diluted (not annualized) in ₹	4.52	2.33	0.69	11.86	
Key numbers of Standalone Finan	cial Results				
Revenue from operations	3277.01	3,264.04	1931.81.	11,572.15	
Profit before tax	1008.37	519.85	332.34	2,715.25	
Profit after tax	750.34	323.59	237.43	1,941.74	
Note: Note: The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges					

under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results is available on the Stock Exchange websites- www.bseindia.com and on the Company website - www.rotopumps.com.

By Order of the Board

Place: Delhi Date: 13th August, 2021

Place: Gurugram

Date: 13.08.2021

Harish Chandra Gupta **Chairman & Managing Director** DIN: 00334405

BHARTIYA INTERNATIONAL LIMITED BHARTIYA BHARTIYA

Regd. Office:-56/7, Nallambakkam Village (Via Vandalur),Chennai, Tamil Nadu-600 048 Extract of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2021

		Standalone		lalone Consolidated			1
S.	Particulars	Quarte	Quarter Ended Year		Quarte	r Ended	Year Ended
No.	Turstouturo	30.06.2021 (Unaudited)	30.06.2020 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)	30.06.2021 (Unaudited)	30.06.2020 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)
1.	Total Income from Operations	7630.93	4248.09	40104.83	11563.14	6462.45	55334.45
2.	Net Profit /(Loss) for the year (before tax, exceptional and /or extraordinary items)	11.67	(2225.00)	237.82	(495.39)	(2959.53)	(589.30
3.	Net Profit /(Loss) for the year before tax (after exceptional and /or extraordinary items)	11.67	(2225.00)	237.82	(495.39)	(2959.53)	(589.30
4.	Net Profit /(Loss) for the year after tax (after exceptional and / or extraordinary items)	12.76	(1761.95	157.87	(494.28)	(2515.43)	(617.67
5.	Cash Profit (Profit After Tax+Depreciation & Amortisation)	212.30	(1545.36)	993.56	(195.96)	(2262.61)	415.82
6.	Total Comprehensive Income for the period (comprising profit/ (loss) for the period (after tax) and other comprehensive Income(After Tax)	19.08	(1754.37)	183.12	(487.80)	(2507.85)	(591.91
7.	Paid up Equity Share Capital (face value Rs.10/-each)	1220.71	1220.19	1220.24	1220.71	1220.19	1220.24
8.	Reserves(excluding Revaluation Reserve)		-	27920.40	-	-	32811.76
9.	Earnings Per Equity Share of Rs. 10/- each (not annualised)						
	Basic Diluted	0.10 0.10	(14.44) (14.39)	1.29 1.29	(4.00) (4.00)	(20.55) (20.48)	(4.83 (4.82

. The above is an extract of the detailed format of the Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said aforesaid Results for the quarter ended 30th June, 2021 are available on the Company's website www.bhartiya.com

and on the website of the National Stock Exchange of India Limited (NSE)(www.nseindia.com), BSE Limited (www.bseindia.com). The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held or 13th August, 2021.

For Bhartiva International Ltd

Manoi Khatta Whole Time Director CIN: L74899TN1987PLC111744 Tel: +91-9551050418-21 E-mail: shares@bhartiya.com Website: www.bhartiya.com



शाखाः वैर जिला भरतपूर (राज.)

केतिक कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) परिशिष्ट- IV (नियम 8(1) के अन्तर्गत) जबिक आंग्रेडस्ताक्षरकर्ता ने पंजाब नैशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभृतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का सं. 54) की धारा 13(12) सपठित, प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रवत्त शक्तियों के प्रयोग में ऋणी अपर्दित प्रवित्त प्रेप प्रयोग में ऋणी अपर्दित पृत्रित के प्रयोग में ऋणी अपर्दित पृत्रित कम्पनी प्रोप. खूबीराम पुत्र स्व. लालाराम दुकान नं. 25, गौंड मण्डी यार्ड यार्ड येर, जिला भरतपुर (राज.) पर मांग सूचना विनांक 29.05.2021 पर उस सूचना की प्राप्ति की तिथि/नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि रू. 15,81,680.20 (रूपये पन्द्रह लाख इक्यासी हजार छः सौ अस्सी एवं बीस पैसे मात्र) दिनांक 31,03,2021 तक एवं आगे का ब्याज एवं अन्य प्रमार का पुनर्मुगतान करने के लिए मंग्न स्वराम का पुनर्मुगतान

अस्सी एवं बीस पैसे मात्र) दिनांक 31.03.2021 तक एवं आगे का ब्याज एवं अन्य प्रमार का पुनर्नुगतान करने के लिए मांग सूचना जारी की गई। अरूणी द्वारा राशि का पुनर्नुगतान करने में असफल होने पर एतदद्वारा ऋणी और आम जनता को सूचना दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने दिनांक 10 माह अगस्त, वर्ष 2021 को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की उपधारा 8 के साथ पठित उस पर प्रदत्त शिक्तायों के प्रयोग में एतिस्मन नीचे वर्णित सम्पत्ति को सांकेतिक कब्जे में ले लिया है। ऋणी को विशिष्टतया एवं आम जनता को एतदद्वारा सम्पत्तियों के साथ कोई संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किया गया कोई भी संव्यवहार पंजाब नैशनल बैंक शाखाः वैर जिला मरतपुर की राशि रू. 15.81,680.20 (रूपये पन्द्रह लाख इक्यासी हजार छः सी अस्सी एवं बीस पैसे मात्र) दिनांक 31.03.2021 तक एवं आगे का ब्याज एवं अन्य प्रमार के अधीन होगा। अरूणी का ब्यान, प्रतिभत आस्तियों को छड़ाने के लिए उपलब्ध समय में अधिनियम की उपधारा (6) एवं

ओम ट्रेडिंग कम्पनी के नाम से व्यावसायिक दुकान नं. 25 गौड़ मण्डी यार्ड यार्ड, वैर, जिला भरतपुर में स्थित है, क्षेत्रफल 543.37 फिट। दिनांकः 10.08.2021 स्थानः भरतपुर मुख्य प्रबंधक (प्राधिकृत अधिकारी)

श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : ऑफिस नं. 123, अंगप्पा नाइकेन स्ट्रीट, वेन्नई—600 00 मुख्य कार्यालय : लेवल—3, वॉकहार्ट टॉवर, ईस्ट विंग सी—2 ब्लॉक बांद्रा कुरला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुम्बई—400 051; फोन नं. : 022 4241 0400, 4060 3100 वेबसाइट : www.shriramhousing.ir

कब्जा सूचना

जैसा कि अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम्) के प्रावधानों के तहत् श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 (उक्त नियम) के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उधारकर्ता को एक मांग सूचना जारी की थी उक्त मांग सूचना में उल्लेखित राशि को चुकाने के लिए जिसका उल्लेख निम्न वर्णित अनुसूची में किया गया है।

उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहा है, एतद् द्वारा उधारकर्ता और आम तौर पर जनता को सूचित किया जाता है अधोहस्ताक्षरी ने एसएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम और नियमों की धारा 13(4) के तहत नीचे वर्णित बंधक रखी गई संपत्ति का प्रतीकात्मक कब्जा इस अगस्त, 2021 के 11वें

उधारकर्ता का नाम और पता	मांग सूचना अनुसार बकाया राशि	सम्पत्ति का विवरण
श्री डुंगर दास वैष्णव पुत्र श्री बाबू दास, श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री बाबू दास, श्री बाबू दास पुत्र श्री प्रेम चंद, डिम्पल वैष्णव पत्नी श्री डुंगर दास	17.05.2021 रु. 29,05,808/- (रुपये उनतीस लाख पांच हजार आठ सौ आठ मात्र) बकाया दिनांक 12/05/2021 को ऋण खाता सं. SHLHJDPR0000107 में देय है तथा भविष्य के ब्याज और	

यह सूचना एतद् द्वारा बड़े स्तर पर आम जनता को सावधान करने के लिए है कि ऊपर उल्लेखित अचल संपत्ति एसएचएफएल के वैध प्रतीकात्मक कब्जे में है और उधारकर्ता या कोई भी व्यक्ति इस सूचना प्राप्ति के बाद हस्तांतरण, बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से / इस सूचेना में उल्लेखित उपरोक्त प्रत्याभूत परिसंपत्ति का एसएचएफएल के किसी पूर्व लिखित सहमति के बिना व्यवहार नहीं कर सकेगा।

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी स्थान : जोधपुर श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड दिनांक: 12.08.2021



दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा, दिल्ली, चौथा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, दिल्ली-११०००८, samdel@bankofbaroda.com 011-43026349, 41709201

मैसर्स एसआरएस मॉर्डर्न सेल्स लिमिटेड, एसआरएस मल्टीप्लेक्स, सिटी सेंटर, सेक्टर 12, फरीदाबाद, 121007 <u>और:</u> एसआरएस टॉवर, यूनिट नं. 700 बी, 7वीं मंजिल, मेट्रो स्टेशन के पास, मेवला, महाराजपुर, जीटी रोड, फरीदाबाद, हरियाणा—121003 परिसामाफ श्री समीर रस्तोगी के माध्यम से एफ-पोली जीटी रोड, फरीदाबाद, हरियाणा—121003 परिसामाफ श्री समीर रस्तोगी के माध्यम से एफ-पोली लाजपत नगर — ।, नई दिल्ली—110024, श्री सुशील कुमार, मकान नं. डीबी—447/1, कलूटी मंदिर, श्याम कॉलोनी, पलवल फरीदाबाद, हरियाणा — 121102, श्री नरेश गोयल, मकान नं. ई—426, ईस्ट बाबरपुर, शाहदरा, दिल्ली—110032, सुनील जिंदल, मकान नं. 538, सेक्टर—14, फरीदाबाद, हरियाणा—121007, श्री सुशील कुमार सिंगला, मकान नं. डीबी—447/1, कलूटी मंदिर, श्याम कॉलोनी, पलवल फरीदाबाद, हरियाणा — 121102, श्री भगवान दास, मकान नं. 131, ब्राह्मण वारा, वार्ड नं. 5, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा —121004, श्री परवीन तायल, मकान नं. 1871, सेक्टर—9, फरीदाबाद, हरियाणा, भारत — 121006 <mark>और:</mark> मकान नं. 202, सेक्टर — 9, फरीदाबाद, हरियाणा — 121006, **डॉ अनिल जिंदल**, मकान नं. 254, सेक्टर — 9, फरीदाबाद, हरियाणा — 122001 <u>औरः</u> मकान नं. 538, सेक्टर 14, फरीदाबाद, हरियाणा-121001, **मैसर्स एसआरएस रिट्रीट सर्विसेज लिमिटेड**, एसआरएस मल्टीप्लेक्स, मेजेनाइन फ्लोर, सिटी सेंटर, सेक्टर —12, फरीदाबाद, हरियाणा— 121007

संदर्भः आपके खाते की घोषणा मैसर्स एसआरएस मॉडर्न सेल्स लिमिटेड और उसके निदेशकों/साझेदारों/मालिकों/गारंटरों को विलफुल डिफॉल्टर्स के रूप में और उनके समक्ष पतिनिधित्व का अवसर

3/ZOSARB/1707 1 निम्नलिखित आघारों पर मैसर्स एसआरएस मॉडर्न सेल्स लिमिटेड और उसके निदेशकों / पाटनर्स / प्रोपराईटर / गारंटरों को विलफुल डिफॉल्टरों के रूप में घोषित करने के लिए फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट विनांक 21.02.2019 के अनुसार, ऑडिटर ने देखा है कि कंपनी ने अपने संबंधित पक्षों के साथ कई बिक्री लेनदेन में प्रवेश किया है जिसका वित्तीय विवरणों में खुलासा नहीं किया गया है। इसलिए उधारकर्ता कंपनी ने AS-18" संबंधित पार्टी लेनदेन के पावधानों का अनुपालन नहीं किया है। इसके अलावा उधारकर्ता कंपनी ने वित्त वर्ष 2013-14 के लिए AS-17" सेगमेंट रिपोर्टिंग" का अनुपालन नहीं किया है क्योंकि यह एक से अधिक वस्तुओं के व्यापार में काम कर रहा

. मैसर्स एसआरएस मॉर्डर्न सेल्स लिमिटेड की देनदार कंपनियों में एसआरएस ग्रुप की खासी दिलचस्पी है। इन कंपनियाँ से वसूली लगमग नगण्य है और इसलिए उद्यारकर्ता कंपनी ने ऐसे देनदारों के साथ लेन–देन में प्रवेश किया है ताकि खातों के बाहर पैसा ले जाया जा सके और उघारदाताओं को धोखा दिया जा सके।

. ऑडिटर ने देनदारों और लेनदारों के पते पर भौतिक दौरा किया और कई कंपनियां पते पर नहीं

4. कंपनी ने मंजूरी के नियमों और शर्तों का पालन नहीं किया है जैसे इसने असुरक्षित ऋण की महत्वपूर्ण राशि का पुनर्भुगतान किया है। साथ ही ऋण लेने वाली कंपनी ने बैंक को कोई अंतिम उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा संपूर्ण व्यापारिक लेन—देन केवल कैश क्रेडिट खातों के माध्यम से नहीं किया जाता है।

5. स्टॉक स्टेटमेंट से पता चलता है कि कर्ज लेने वाली कंपनी ने जिस बुक डेट पर ड्रॉइंग पावर का फायदा उठाया है. वह सीधे या परोक्ष रूप से कर्ज लेने वाली कंपनी से संबंधित है। इससे पता चलता है कि कर्ज लेने वाली कंपनी बैंकों से बढ़ी हुई आहरण शक्ति का आनंद ले रही थी।

 लेखापरीक्षक ने देखा है कि ऋण लेने वाली कंपनी ने 31.03.17 के बाद अपने खातों की पुस्तकों का रखरखाव नहीं किया है। लेखांकन सॉफ्टवेयर में कथनों की उचित विवरण के साथ पुष्टि नहीं की गई थी। एमसीए पोर्टल के अनुसार कर्जदार कंपनी ने 31.03.16 तक ही अपना बैलेंस शीट दाखिल किया

. मेसर्स एसआरएस मॉडर्न सेल्स लिमिटेड ने गैर–प्राथमिकता वाले ऋणों के भुगतान को बैंक ऋणों 7. नत्तर रप्तारार्थन नावन तरन तिनाव ने गरिन्यावान्यकारी वाल ऋणी के मुगतान से अधिक महत्वपूर्ण माना है। कर्जदार कंपनी ने ऑडिट के तहत आने वाली अवधि के दौरान असुरक्षित ऋणों की अदायगी के एवज में 3.42 करोड़ रुपये का मुगतान किया है। 8. जुधारकर्ता कंपनी ने उन कंपनियों से फर्जी खरीदारी की है जो गैर–वास्तविक हैं और केवल

ुखौटा / कागज कंपनियां हैं। खातों की किताबों को गलत साबित करने और आहरण शक्ति का लाभ् उठाने के लिए खातों की परी विंडो डेसिंग है।

30 जं शिल्प आप भे पूर्ण पेवल कुर्पिन है। 9. जंधारकर्ता कंपनी ने संघ, ई–विजय बैंक (अब बीओबी), पीएनबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नकद क्रेडिट खातों से शेल ⁄पेपर कंपनियों को गुमनाम भुगतान किया है। प्राप्तियों और भुगतानों को समूह की कंपनियों के अंदर और बाहर घुमाया जाता है और धन का विचलन होता है।

10. लेखा परीक्षक ने लेनदारों का भौतिक सत्यापन किया है। निरीक्षणों के दौरान लेखापरीक्षक द्वारा पाया गया कि अधिकांश पक्ष लेखापरीक्षकों द्वारा सत्यापित पते पर मौजूद नहीं हैं। लेखापरीक्षक के अवलोकन के अनुसार, ऊपर उल्लिखित लेनदारों को फर्जी लगता है जिससे मुगतान के लिए इंफेटिड लेनदारों को दिखाने के लिए काल्पनिक लेनदारों को बनाने के लिए पुस्तकों में सामग्री की खरीद को दिखाया गया है।

11. कर्जदार कंपनी ने 25.00 लाख रुपये के शेयर भी जारी किए हैं। मेसर्स एसआरएस प्रोफेशनल सर्विसेज लिमिटेड नाम की अपनी समूह कंपनी को जारी किए जाते हैं जिसका नाम मेसर्स एसआरएस नॉलेज एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में बदल दिया जाता है और मेसर्स एसआरएस कम्प्यूटेक लिमिटेड जिसका नाम बदलकर मेसर्स टॉप च्वाइस कम्प्यूटेक लिमिटेड कर दिया गया है। ये शेयर 190 रुपये प्रति शेयर के प्रीमियम पर जारी किए जाते हैं। इस प्रकार शेयरों के आवंटन की आड़ में निधियों का डायवर्जन हो गया है।

12. उपरोक्त लेनदेन को सत्यापित करने के लिए कोई सूची और रिकॉर्ड / रजिस्टर नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि स्टॉक संबंधित पार्टी को वापस कर दिया गया था और खाते में डेबिट उसके नाम पर दिखाई दे रहा है। इसलिए माल की वापसी की यह प्रविष्टि वास्तविक नहीं है।

जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी शाखा ने दिनांक 17.07.2020 को पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट / करियर द्वारा ऊपर उल्लिखित कारण बताओ नोटिस भेजा था, जो आपको विभिन्न तिथियों अर्थात 24.07.2020, 27.07.2020, 28.07.2020 और 29.07.2020 को प्राप्त हुआ है। उपरोक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने के बाद भी, हमें आपकी ओर से कोई अभ्यावेदन या प्रतिक्रिया प्राप्त

उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों और दस्तावेजों का रिकार्ड में ध्यान देने के आलोक में. बैंक के उपराण राज्यां का पाराव्यात्मा का प्रशासका का रिकार के जान के किया है कि किया है कि किया का किया की किया के किय विकार्जुल डिफॉल्टर्स (सीओई) पर अधिकारियों की समिति ने कारण बताओ नोर्टिस में उल्लिखित आधार पर कंपनी/फर्म/उधारकर्ता और उसके निदेशकों/भागीदारों/मालिक/गारंटर को विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने का निर्णय लिया है। यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि उधारकर्ता ने ऋण्याता को अपने भुगतान/पुनर्मुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक की है और उसने ऋणदाता से उन विशिष्ट प्रयोजनों के लिए वित्त का उपयोग नहीं किया है जिनके लिए वित्त का लाम उठाया गया था. लेकिन उन्होंने अन्य प्रयोजनों के लिए धन को डायवर्ट कर दिया है और बैंक की जानकारी के बिना टर्म लोन हासिल करने के उद्देश्य से दी गई चल निश्चित परिसंपत्तियों या अचल संपत्ति को भी

बंद कर दिया है या हटा दिया है । गरतीय रिजर्व बैंक के दिशा—निर्देशों के अनुसार और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के लिए, यदि आप चाहें, तो आप अपना आगे प्रस्तुतीकरण / अन्यावेदन भेज सकते हैं,यदि कोई, इस पत्र की प्राप्ति की तारीख से —15 दिनों के भीतर विलफुल डिफॉल्टरों पर समीक्षा समिति द्वारा विचार के लिए कि आपका खाता और आपको बैंक द्वारा विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत क्यों नहीं

कृपया ध्यान दें कि, यदि बैंक द्वारा आपको विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने के इरादे के खिलाफ आपका आगे प्रस्तुतीकरण / अभ्यावेदन इस पत्र की प्राप्ति की तारीख से —15 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि आपके पास जमा करने के लिए कुछ भी नहीं है। और बैंक आगे बढ़ेगा और आपके खाते को विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत करेगा। बैंक के पास समाचार पत्र में विलफुल डिफॉल्टर का नाम और फोटो प्रकाशित करने का अधिकार सुरक्षित है और भारतीय रिजर्व

बैंक द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक वसूली कार्रवाई शुरू करेगा। यह पत्र इरादतन चूककर्ताओं पर कार्यकारी समिति (सीओई) के निर्देशों के अनुसार जारी किया गया

शाखा प्रबंधक

किया गया है।